



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-05.11.2022

**पुलिस छापेमारी में स्पा पार्लर की आड़ में अनैतिक देह व्यापार में लिप्त 01 नफ़र अभियुक्त एवं 02 नफ़र अभियुक्ता गिरफ्तार, मौके से 03 अदद मोबाइल फोन, आपत्तिजनक दवाओं एवं वस्तुओं के साथ 1600/- रुपए नकद, दस्तावेज़ आदि बरामद ।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, दिनांक-04.11.2022 प्रवोधनी एकादशी के अवसर पर क्षेत्र में शान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत भ्रमणशील श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट को सूचना मिली कि राजश्री मिष्ठान के बगल में अंदर गली में एक सार्वजनिक स्थान पर जहां पर कचहरी कलेक्ट्रेट कार्यालय है व आस-पास कई सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के पास अनैतिक व्यापार का धंधा संचालित किया जा रहा है, जिसके मकान मालिक एवं धंधा संचालन करने वाले शरद गुप्ता पुत्र विष्णु स्वरूप गुप्ता निवासी-S 28/40-3 वाराणसी अनौला वाराणसी इस धंधे में संलिप्त हैं और यह लोग भोली-भाली लड़कियों को काम का लालच देकर स्पा सेंटर/पार्लर पर बुलाकर जबरदस्ती देह व्यापार कराते हैं तथा जबरदस्ती देह व्यापार करने वाली लड़कियों को 4 से 5 हजार रुपया देते हैं और उक्त लड़कियां ज्यादा पैसे के लालच में प्रतिदिन आकर व्यापार करती हैं। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट द्वारा पुलिस टीम के साथ राजश्री स्वीट्स के बगल वाली गली में एक भवन के तृतीय तल पर छापेमारी की गई तो वहां पर 02 महिला व 01 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मसाज करते हुए मिले तथा 02 लोग छत के ऊपरी तल से छत के माध्यम से भाग गये। कमरे/हाल में डिवाइड पार्टीशन की तलाशी ली गई तो अगल-बगल व बिस्तर के पास से कन्डोम एवं सेक्स वर्धक दवाये, यूनिसैक्स सैलून एवं स्पा का आईडी कार्ड, शरद गुप्ता पुत्र विष्णु स्वरूप गुप्ता नवासी S-28/40-3 अनौला वाराणसी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक, बैंक पासबुक, आईडी कार्ड एवं व अनैतिक देह व्यापार से संबंधित रजिस्टर/कॉपी, 3 अदद मोबाइल आदि बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0-0514/2022 धारा 3/4/5/6/7 अनैतिक व्यापार निवारण अधि0 1956 अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **बरामदगी का विवरण-**

- 1.03 अदद मोबाइल फोन
- 2.सेक्स वर्धक दवाईया एवं कण्डोम
- 3.1600/- रुपया नगद
- 4.अनैतिक व्यापार से सम्बन्धित कापी/रजिस्टर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विजिटिंग कार्ड, पेमेन्ट स्कैनर, पासबुक, चेकबुक बरामद।

## गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1.श्री मनीष कुमार शाण्डिल्य सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2.प्रभारी निरीक्षक प्रभुकान्त थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3.उ0नि0 शिवानन्द सिसोदिया चौकी प्रभारी अर्दली बाजार थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 4.उ0नि0 विनोद कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी कचहरी थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 5.उ0नि0 राज कुमार थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 6.उ0नि0 शिवशंकर यादव थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 7.उ0नि0 विजय चौधरी थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 8.का0 चालक अवनीश यादव थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 9.का0 दुर्गा यादव थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 10.का0 अतुल कुशवाहा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 11.का0 सुनील कुमार थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 12.का0 अरुण सिंह थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 13.का0 प्रकाश चन्द यादव थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 14.का0 अमित यादव थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 15.म0का0 अंकिता राव थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 16.म0का0 कल्पना सिंह थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

